

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.